

SIXTH SEMESTER EXAMINATION 2021-22**Class - B.A.****Subject - Home Science****¼/kgkj , oa i kŠk. k½**

Time : 2.30 Hrs.

Max. Marks : 60

Total No. of Printed Page : 06

Mini. Marks : 21

ukš/ & izu i = rhu [k.MkaeafokDr gSA I Hkh rhu [k.Mkads izu funž kkuđ kj gy
dhft ; sA vdkadk foHktu i R; đ [k.M eafn; k x; k gSA

Note: Question paper is divided into three sections. Attempt question of all three section
as per direction. Distribution of Marks is given in each section.

[k.M & ^* Section - 'A'

i R; đ bdkbZ I snk izu gy dhft ; sA

Attempt two questions from each unit.

vfry?kqRrjh; izu] 'kCn I hek 30 'kCnka eA

(10x2=20)

Very short answer question (word limit 30 words.)

bdkbZ & I / Unit -I

1. प्रोटीन की परिभाषा दीजिये।

Give the definition of protein.

2. कार्यो के आधार पर पौष्टिक तत्वों का वर्गीकरण लिखिये।

Write the classification of Nutrients on basis of functions.

3. विटामिन "A" की कमी से कौन सी बीमारी होती है ?

Which disease is caused by vitamin 'A' deficieng ?

bdkbz & II / Unit -II

4. अनाजों के प्रकार बताइये ।
Write the types of cereals.
5. होमोजीनाइजेशन क्या है ?
What is Homogenization ?
6. खमीरीकरण को परिभाषित कीजिये ।
Define fermentation.

bdkbz & III / Unit -III

7. खाद्य संरक्षण का अर्थ लिखिये ।
Write the meaning of food preservation.
8. भोज्य विषाक्तता के दो कारण दीजिये ।
Give the two causes of food toxicity.
9. खाद्य मिलावट के प्रकार बताइये ।
Write the types of food adulteration.

bdkbz & IV / Unit -IV

10. गर्भावस्था में प्रतिदिन कितना अतिवृत्त प्रोटीन दिया जाता है ?
How much extra protein per day is given during pregnancy ?
11. आहार आयोजन का अर्थ दीजिये ।
Give the meaning of meal planning.
12. धात्री अवस्था में पोषण के सिद्धांत लिखिए ।
Write the principles of nutrition in Lactation.

(3)

bdkbZ & V / Unit -V

13. मधुमेह के प्रकार लिखिये।
Write the types of diabeties.
14. यकृत के रोगों के नाम दीजिये।
Give the name of diseases of liver.
15. उच्च रक्त चाप का क्या तात्पर्य है ?
What do you mean by Higher tension ?

[k.M & ^c* Section - 'B'

y?kqRrjh; izu ¼ kCn I hek 60 'kCn½

Short answer question (words limit 60 words)

5x4=20

I Hkh izu gy dhft; A

Attempt all questions.

bdkbZ & I / Unit -I

16. वसा के अभिशोषण को समझाइये।
Explain the absorption of fat.

vFkok@OR

खनिज लवण के कार्यों को लिखिये।

Write the functions of minerals.

(4)

bdkbZ & II / Unit -II

17. पारवाईलिंग की प्रक्रिया को समझाइये।

Explain the process of parboiling.

vFkok@OR

अण्डे का संगठन बताइये।

Write the composition of egg.

bdkbZ & III / Unit -III

18. खाद्य पदार्थों में सड़न को समझाइये।

Explain the spoilage of food.

vFkok@OR

खाद्य संरक्षण की विधियों को लिखिये।

Write the methods of food preservation.

bdkbZ & IV / Unit -IV

19. शालेय आहार कार्यक्रम के प्रकारों को समझाइये।

Explain the types of school Nutritional programmes.

vFkok@OR

(5)

माता के दूध के संगठन को लिखिये।

Write the composition of mothers milk.

बदकल & V / Unit -V

20. कब्ज के कारणों का उल्लेख कीजिये।

Throw light the causes of constipation.

vFkok@OR

अधिक वजन के कारण और आहारिय उपचारों को लिखिये।

Write the causes and diatery treatment of over weight.

[k.M & ^1 * Section - 'C'

nh?kznRrjh; i'z u&

Long answer question:

2x10=20

fuEukfdr ea l sfdllgh nks i'z uk dks gy dhft ; A

Attempt any two questions from the following:-

bdkbz & I / Unit -I

21. प्रोटीन का वर्गीकरण, पाचन, चयापचय और नाइट्रोजन संतुलन का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

Describe the classification, digesation metabolism and Nitrogen Balance of protein in detail.

bdkbz & II / Unit -II

22. टिप्पणी लिखिये – (कोई दो)

1. भोज्य समूह
2. दालें
3. दूध

Write short notes : (any two)

- i. Food groups
- ii. Pulses
- iii. Milk

bdkbz & III / Unit -III

23. औद्योगिक संरक्षण पर निबंध लिखिये।

Write an essay on Industrial pervervation.

bdkbz & IV / Unit -IV

24. बालकों के पोषण का वर्णन कीजिये।

Describe the nutrition of children.

bdkbz & V / Unit -V

25. पेट्टिक अल्सर के कारण, लक्षण और आहारीय चिकित्सा को समझाइये।

Explain the causes, symptoms and diateary treatment of Paptic Ulcer.